

March 16, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai –400 051

Scrip Code: 520086

Symbol: SICALLOG
Series: BE

Sub: Newspaper publication of post-issue advertisement in relation to the rights issue of Sical Logistics Limited ("Company")

Dear Sir/Madam,

In relation to the rights issue, we enclose copies of newspaper advertisement, in compliance with Regulation 92 (1) of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, which have been published on Saturday, i.e., March 14, 2026, in the following newspapers:

Newspaper	Language	Editions
Business Standard	English	All editions
Hindustan	Hindi	All editions
Dinamani	Tamil	Tamil Nadu editions

The above information will also be hosted on the website of the Company at <https://sical.in/>

You are hereby requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sical Logistics Limited



(Vaishali Jain)
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. A58607

Encl. as above

SICAL LOGISTICS LIMITED

CIN: L51909TN1955PLC002431

Registered Office: South India House 73 Armenian Street, Chennai - 600 001 India
Tel.: + 91 44 66157071, + 91 44 66157072 | Email : info@sical.in Web : www.sical.in

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Registered Office: 6th Floor, B Building, Ganga Trueno, Lohgaon, Pune, Maharashtra 411014

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Grihum Housing Finance Limited herein after referred as the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 3 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this 09th Day of the March of the Year 2026. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of secured Creditor the amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of Property taken in possession are herein below.

Sr. No.	Name of Borrowers	Description of Property	Possession taken Date	Date of statutory Demand Notice	Amount in Demand Notice (Rs.)
1	VOILET D WIFE OF NAGESH WARA RAO (SINCE DECEASED)	All That Piece And Parcel Of Land And Building Comprised In S. No. 129/2, T.S.No. 16, Block No.1, Measuring With To An Extent Of 1/7 Th Uds Out Of 1320 Sq.Ft., Along With Flat Bearing No.7 In A- Block On The Western Side In Third Floor, Having Its Plinth Area Of 740 Sq.Ft. Situated At Door No.64-A, Palayakkara Street, Ayanavaram, Chennai 600 023, Chinnam Sembarambakkam Village, Purasawalkam-Perambur Taluk, Chennai District And Bounded On The North By : Sesheela Ammal's House And Ground And A Common Passage Left By The Sesheela Ammal, South By : 12 Feet Common Passage, East By : Palayakkara Street, West By : P.C.Rajalakshmi Property.	09/03/2026	22/01/2025	Loan No. HF0539H20100152 Rs. 2464439.24/- (Rupees Twenty Four Lakh Sixty Four Thousand Four Hundred Thirty Nine and Twenty Four Paise Only) payable as on 23/01/2025 along with interest @ 18 p.a. till the realization.

In any case if there is any difference between the contents of local language publication and English newspaper publication, the content, of the English newspaper language published in Business Standard shall be prevail

Place: CHENNAI Date: 14.03.2026 Sd/- Authorised Officer, Grihum Housing Finance Limited,

IIFL FINANCE தங்க நகைக் கடன்

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Limited located at #62, First Floor, Church Street, Karaikal, Pin-609602 is shifting to below mentioned address with effect from 11.06.2026.

New Address: IIFL Finance Limited, No. 26, Ground Floor, Perumal Koil Street, Karaikal - 609602

Contact No.: 7305088348

All existing services can be availed at the new location.

பொது அறிவிப்பு

#62 முதல் தளம், சர்ச் தெரு, காரைக்கல், பின்-609602 இல் அமைந்துள்ள ஐஐஎஃப்எல் கபைனாண்ட்ஸ் லிமிடெட் இன்னை, 11.06.2026 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

புதிய முகவரி: ஐஐஎஃப்எல் கபைனாண்ட்ஸ் லிமிடெட், எண். 26, தரை தளம், பெருமாள் கோயில் தெரு, காரைக்கல் - 609602

தொடர்பு எண்: 7305088348

தற்போதுள்ள அனைத்து சேவைகளையும் புதிய இடத்தில் பெறலாம்.

Infosys Navigate your next

Infosys Limited

CIN : L85110KA1981PLC013115

44, Infosys Avenue, Electronics City, Hosur Road, Bengaluru - 560 100

Phone: 91 80 2852 0261, Fax: 91 80 2852 0362

investors@infosys.com, www.infosys.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and the registered shareholder(s) thereof have applied for issue of duplicate share certificate(s).

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue **Letter of Confirmation* in lieu of duplicate share certificate(s)** unless a valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice. No claims will be entertained by the Company with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Name of Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.		No. of Shares
			From	To	
T C GOPINATH	ITL018243	2386527	4479747110	4479747141	32

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/ their claim with all supporting documents with the Company at its registered office. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue **Letter of Confirmation* in lieu of duplicate share certificate(s)** to the person listed above and no further claim would be entertained from any other person(s).

* The issuance of the LoC will remain applicable until April 1, 2026. Effective April 2, 2026, the securities will be credited directly to investors' demat accounts.

Registered Office: For Infosys Limited
Electronics City, Hosur Road, Bengaluru - 560 100

March 13, 2026

A.G.S. Manikantha
Company Secretary
Membership No. A21918

JANA SMALL FINANCE BANK | Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, (A Scheduled Commercial Bank) | Next to ECL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: No1, Ramlinga Nagar, Chennai Plaza, Trichy-620017.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.

Whereas you the below mentioned Borrowers, Co-Borrowers, Guarantor's and Mortgagees have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as **Non-performing Asset**, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantor's/ Mortgagees as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

Sr. No.	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagee	Loan Account No. & Loan Amount	Details of the Security to be enforced	Date of NPA & Demand Notice date	Amount Due in Rs. / as on
1	1) Mrs. Meena, Co-Borrower Cum Legal Heir Wife of Late Borrower Mr. Elangovan, D.No.1/13, Aththiravidar Street, Pulavar Natham, Pabanasam Tk, Thanjavur-613501. 2) Mr. Sivasankar, Legal Heir S/o. Late Borrower Mr. Elangovan, D.No.1/13, Aththiravidar Street, Pulavar Natham, Pabanasam Tk, Thanjavur-613501. 3) Mrs. Shanmugapriya, Legal Heir Dio. Late Borrower Mr. Elangovan, D.No.1/13, Aththiravidar Street, Pulavar Natham, Pabanasam Tk, Thanjavur-613501. 4) Mr. Eniyavan, L Egal Heir S/o. Late Borrower Mr. Elangovan, D.No.1/13, Aththiravidar Street, Pulavar Natham, Pabanasam Tk Thanjavur-613501.	Loan Account No. 31750430000671 Loan Amount: Rs.5,00,000/-	All that piece and parcel of the immovable property of the land and building comprised in S.No.257/53, Measuring an extent of 134 Sq.mtr., situated at Pulavarnatham Village, Papanasam Taluk, Thanjavur, District and situated with in Registration District of Thanjavur and Sub Registration District of Ammapatali, Thanjavur. Four Boundaries: On the East: Plot belongs to Dharmalingam S.No.257/54. On the West: Plot Belongs to Veeraiyan S.No.257/52, On the South: Canal. On the North: Road.	Date of NPA: 03-03-2026 Demand Notice Date: 11-03-2026	Rs.5,19,063/- (Rupees Five Lakhs Nineteen Thousand and Sixty Three Only) as 10-03-2026

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagee as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, **Jana Small Finance Bank Limited** shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to **Jana Small Finance Bank Limited** against the Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantor's/ Mortgagees of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Date: 14.03.2026, Place: Thanjavur Sd/- Authorised Officer, Jana Small Finance Bank Limited

GVK Power (Goindwal Sahib) Limited

Regd. Office: Plot No. 10, Paigah Colony, Sardar Patel Road, Secunderabad-500003, Telangana, India CIN:U40109TG1997PLC028483 (A wholly owned subsidiary of Guru Amar Das Thermal Power Limited, GATPL) (A step down wholly owned subsidiary of Punjab State Power Corporation Limited, PSPCL)

Electrical, GATP, Goindwal Sahib, invites E-Tender for the work of:

Tender Enquiry No. 136/GATP/EMD/20018113 dated 13/03/2026

1) "Procurement for the Procurement of 37KW,50HP,3PH, 415V AC, RPM: 1470, D225M SC, Cage Induction Motor, as per Details provided in Techno commercial, at 2X270 MW Guru Amar Das Thermal Plant (GATP), Goindwal Sahib, Dist:- Tarn Taran, Punjab as per details given in the tender specifications."

For detailed NIT & tender specifications, please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 13/03/2026, from 17:00 Hrs. onwards.

Note: Corrigendum and addendum, if any, will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in> 1079/12/025-26/9450 GATP-28/26

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

केन्द्रीय विपणन संगठन CENTRAL MARKETING ORGANISATION

डिमांड रजिस्ट्रेशन नोटिस 2026-27

आर्डर बुकिंग स्कीम 2026-27 के तहत माइल्ड स्टील उत्पादों को अपनी आवश्यकता को दर्शाने के लिए सेल प्रारंभ की आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण www.sail.co.in से डाउनलोड, अधिकांश सेल के शाखा विक्रय/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। सेल द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 25 मार्च, 2026

DEMAND REGISTRATION NOTICE 2026-27

SAIL invites customers to indicate their requirement of mild steel items for consideration under Order Booking Scheme of 2026-27. Details can be downloaded from www.sail.co.in or can be obtained from Branch Sales Offices/Regional Offices of SAIL. Last date for receipt of applications by SAIL : 25th March, 2026

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website : www.sail.co.in

There's a little bit of SAIL in everybody's life

NSE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.

Regd. Office: Exchange Plaza, C-1, Block K, Bandra Kurla Complex, Bandra (West), Mumbai - 400 050

Postal Ballot Notice and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, (Act) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, and other applicable provisions, if any, of the Act, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), as amended from time to time, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), read with applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time to time, that the resolution seeking approval for appointment of Sri Dinesh Pant (DIN: 11134993), Life Insurance Corporation of India ("LIC") nominee, as a Non-Independent Director on the Board of the National Stock Exchange of India Limited ("Company"), is proposed to be passed as an Ordinary Resolution by the Shareholders of the Company through Postal Ballot, by voting through electronic means ("remote e-voting") only.

Postal Ballot Notice

In compliance with aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose names appear in the Register of Members or Register of Beneficial Owners as received from the Depositories/ MFU's Intime India Private Limited, the Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA") as on Friday, February 27, 2026 ("Cut-off date") and whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories/Depository Participants ("DP") or who will register their e-mail address in accordance with the process outlined in this Notice.

If your e-mail address is not registered with the Company/RTA/Depositories/DPs, you may register on or before 5:00 p.m. (IST) on Thursday, April 9, 2026, to receive this Postal Ballot Notice by completing the process for registration of e-mail address as under:

Click on the URL: https://web.in.mgms.mfug.com/EmailReg/Email_Registree.html

a) Select the Name of the Company from dropdown: National Stock Exchange of India Limited.

b) Enter DP and Client ID and Permanent Account Number ("PAN")

c) Enter Mobile number and e-mail ID.

d) System generated One Time Password ("OTP") to be sent on mobile number and e-mail ID.

e) Enter OTP received on mobile number and e-mail ID.

f) Click on Submit button.

g) On completing the above process your request will be accepted and request ID will be generated. The request ID is for limited purpose of sending notice pertaining to the current event. For permanent registration of email, kindly contact your DP.

The copy of the Notice is made available on the Company's website at <https://www.nseindia.com/static/investor-relations/shareholders-meetings> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.voting.nsdl.com.

E-voting

The communication of assent or dissent by the Shareholders would take place only through the remote e-voting system. The Company has availed the services of NSDL for facilitating voting through electronic means to enable the Shareholders to cast their votes electronically. The voting rights on the proposed resolution shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Shareholders as on the Cut-Off Date and a person who is not a Shareholder of the Company as on the Cut-Off Date should treat the Notice for information purposes only.

The remote e-voting period commences from 9:00 a.m. (IST) on Saturday, March 14, 2026 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, April 12, 2026. The e-voting mode shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on resolution is cast, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Queries/Grievances

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders & e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mrs. Pallavi Mhatre, Associate Vice President or Mr. Sanjeev Yadav, Deputy Manager at evoting@nsdl.com.

Scrutinizer's Report and Postal Ballot Result

The Board of Directors of the Company has appointed Shri. Atul Mehta (Membership No. FCS 5782 and COP No. 2486) and failing him, Smt. Ashwini Inamdar (Membership No. FCS 9409 and COP No. 11226), of Mehta & Mehta, Practising Company Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner. As authorised by the Board, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or any person authorized by him upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting. The results of the Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, April 14, 2026.

The said results along with the Scrutinizer's Report would be uploaded on the Company's website www.nseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

For National Stock Exchange of India Limited Sd/- Pranjata Powle Company Secretary (ACS 20133)

Place: Mumbai Date: March 13, 2026

Nifty50

KANCO TEA & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L15491WB1983PLC035793

Regd. Office: Jasmine Tower, 3rd Floor, 31 Shakespear Sarani, Kolkata-700 017

Website: www.kanco tea.in, email id: contact@kanco tea.in

Telefax: (033) 2281 5217

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MRSD-PDD/ I/3750/2026 dated 30th January, 2026 shareholders are hereby informed that the Special Window has been re-opened for re-lodgement of transfer deeds along with physical share certificates which were lodged prior to April, 1, 2019 and were rejected and returned due to deficiency in the documents. This facility of re-lodgement will be available to the eligible physical shareholders till 4th February, 2027. In case you wish to avail this opportunity, please contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent- C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED at their office at Rasool Court, 5th floor, 20 Sir RN Mukherjee Road, Kolkata-700001. The shares that are re-lodged for transfer, if approved, will be issued only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien marked/pledged during the said lock-in period. For further information please send an email at ra@cbmsl.com. Sd/- Charulata Kabra Company Secretary & Compliance Officer

EICHER EICHER MOTORS LIMITED

CIN: L34102DL1982PLC129877

Regd. Office: Office number 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot Number 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

Telephone: +91 11 41095173

Email: investors@eichermotors.com, Website: www.eichermotors.com

Notice for Loss of Share Certificates

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) of Eicher Motors Limited ("the Company") have been reported as lost/misplaced/stolen by the below mentioned registered holder(s) and they have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s).

Name of Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of shares (Face value Rs.10 each)
Rakesh Kumar Sharma	0052855	89546	18740806 18740906	100 100

Any person who has a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her claim with all supporting documents with the Company at its registered office located at Office No. 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot No. 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001, India. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s)/ Letter of Confirmation to the person(s) named above subject to verification of all documents and no further claim would be entertained from any other person(s).

For Eicher Motors Limited Sd/- Atul Sharma Company Secretary & Compliance Officer

Date : March 13, 2026 Place : New Delhi

RARE ASSET RECONSTRUCTION LIMITED

Regd. Office: 104-106, Gala Argos, Nr. Harikrupa Tower, Gujarat College Rd, Ahmedabad- 380006 Tel- 079 4593 2702

PUBLIC NOTICE - AUCTION OF FINANCIAL ASSET

Rare Asset Reconstruction Limited ("Rare ARC"), is in the process of conducting sale of its Non-Performing Loan for 2 Borrowers Account with aggregate Principal Outstanding of INR 140.90 Crore (Proposed Sale). The Proposed Sale will be conducted in accordance with the Master Direction-Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures)/Directions, 2021 and applicable law. Rare ARC invites Expression of Interest from all the Asset Reconstruction Companies to participate in the Proposed Sale through a bid process. Entitles interested in participating in the bid process may express their interest by submitting an "Expression of Interest". It may be noted that entities interested in participating in the Proposed Sale are required to execute a non-disclosure agreement. However, please note that the transfer will be subject to final approval by the Competent Authority of the Rare ARC and subject to applicable regulations issued by the Reserve Bank of India (RBI). The sale shall be on "As is Where is and as is what is basis" and without recourse basis. Eligible bidders are requested to intimate their willingness to participate by way of an Expression of Interest. The Tender Document with detailed terms and conditions for the bid process and for submission of Expression of Interest can be obtained from shahini@rarearc.com or snehal@rarearc.com. Last date for submission of EOIs is 17.03.2026 up to 5.00 PM and last date for submission of Bid is 25.03.2026. For any queries, please feel free to reach out to shahini@rarearc.com or snehal@rarearc.com

All corrigenda/addenda/amendments/time extension/clarifications etc., if any, to the Tender Document will be hosted at the website (www.rarearc.com).

Note: Rare ARC reserves the right to reject all or any bid(s), wholly or partly without assigning any reason whatsoever.

Place: Ahmedabad Date: 13-03-2026 Sd/- Authorized Officer (Rare Asset Reconstruction Ltd)

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 16, 2026 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE" together with NSE, the "Stock Exchanges") and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

SICAL

A Pristine Group Company

SICAL LOGISTICS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'South India Corporation (Agencies) Private Limited' on May 6, 1955, as a company limited by shares under the Companies Act, 1913 pursuant to a certificate of incorporation dated May 6, 1955, within the jurisdiction of the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Madras (now Chennai). Subsequently, the name of our Company was changed to 'Sical Logistics Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued on February 14, 2006, under the Companies Act, 1956 by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("RoC").

THE PROMOTER OF OUR COMPANY IS PRISTINE MALWA LOGISTICS PARK PRIVATE LIMITED FOR PRIVATE CIRCULATION TO PUBLIC SHAREHOLDERS OF SICAL LOGISTICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 1,45,35,790* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹64 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹54 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹9,303 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 11 (ELEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 18, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 71.

*Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Shareholders and Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on February 26, 2026, and closed on March 10, 2026.

Out of the total 1177 Applications for 2,01,52,753 Rights Equity Shares, 109 Applications for 30,02,863 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer.

The total number of valid Applications received were 1068 for 1,71,49,890 Rights Equity Shares, which was 117.98 % of the number of Rights Equity Shares to be Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on March 11, 2026, in consultation with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Board of Directors of the Company on March 12, 2026 has approved the allotment of 1,45,35,790 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. Information regarding Applications received (including ASBA Applications received, after technical rejection):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (Rs.)	Number	Value (Rs.)
Public Shareholders	1044	97.75	1,57,55,640	1,00,83,60,960	91.87	1,36,22,347
Renounees*	24	2.25	13,94,250	8,92,32,000	8.13	9,13,443
Total	1068	100.00	1,71,49,890	1,09,75,92,960	100	1,45,35,790

* Investors (identified based on DPID and Client ID) whose name do not appear on the list of Public Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the issue are considered the Renounees

2. Basis of Allotment:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received Number	No. of Shares under valid applications	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A) Number	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B) Number	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B) Number
Public Shareholders	1044	1,57,55,640	43,74,993	92,47,354	1,36,22,347
Renounees*	24	13,94,250	9,13,443	0	9,13,443
Total	1068	1,71,49,890	52,88,436	92,47,354	1,45,35,790

* Investors (identified based on DPID and Client ID) whose name do not appear on the list of Public Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the issue are considered the Renounees

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, was completed on March 13, 2026. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications was issued to SCSBs on March 11, 2026. The listing application was filed with NSE and BSE on March 12, 2026. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form was completed on March 13, 2026. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA accounts" on page 94 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE and BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about March 17, 2026. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD-PoD-1/1P/CIR/2025/31 dated 11/03/2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements was sent to NSDL & CDSL on March 13, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALIZATION FORM.

Disclaimer clause of NSE (Designated Stock Exchange)

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer clause of the NSE under the heading "Other regulatory and statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 68 of the Letter of Offer.

Disclaimer clause of BSE:

"It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited under the heading "Other regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 69 of the Letter of Offer."

REGISTRAR TO THE ISSUE

COMPANY

Cameo Corporate Services Limited
Address: No.01, Club House Road, Mount Road, Chennai - 600002, Tamil Nadu
Telephone: 044 4002 0700 / 2846 0390
E-mail: rights@cameoindia.com
Investor Grievance ID: investor@cameoindia.com
Contact Person: Ms. K. Sreepriya
Website: www.cameoindia.com
SEBI Registration No.: INR000003753

SICAL LOGISTICS LIMITED
Address: South India House 73, Armenian Street, Chennai - 600001, Tamil Nadu
Telephone: +91 44 66157071 / 72
E-mail: cs@pristinelogistics.com
Contact Person: Vaishali Jain
Website: www.sical.in
SEBI Registration No.: L51909TN1955FLC002431

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the solefirst holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Sical Logistics LIMITED On behalf of Board of Directors Sd/- Vaishali Jain Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai Date: March 13, 2026

SICAL LOGISTICS LIMITED has filed a Letter of Offer with Stock Exchanges on February 16, 2026. The letter of offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the stock exchange at www.bseindia.com and the website of registrar at www.cameoindia.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer filed with the SEBI and the stock exchanges, including the section titled "Risk Factors" on Page 16 of the Letter of Offer, for details of the same.

This announcement has been prepared for



तेल संकट दुनिया के लिए हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा झटका एलपीजी का स्वदेशी और सुरक्षित विकल्प 'डीएमई'

रिपोर्ट

रोशन किशोर, अभिषेक झा, श्रीदेव कृष्णकुमार

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी मासिक ऑयल मार्केट रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में आपूर्ति में सबसे बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के नेताओं के बयान भी किसी राहत का संकेत नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को रोकना तेल की कीमतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेल की कीमतें बढ़ने पर अमेरिका को फायदा भी होता है। दूसरी ओर, ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ऊर्जा बाजार की स्थिति और इस संघर्ष से जुड़ी राजनीति को देखते हुए आशांका है यह तेल संकट दुनिया के लिए सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका साबित हो सकता है।

विकल्प ढूंढना हुआ मुश्किल

1979-80 में ईरानी क्रांति और ईरान-इराक युद्ध से तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा था। तब बिजली बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तेल जलाया जाता था। पर आज तेल का उपयोग पहले की तरह व्यापक नहीं है। अब इसका मुख्य प्रयोग परिवहन क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण में होता है। हालांकि यह बदलाव दोधारी तलावर जैसा है। आज तेल की मांग स्थिर और जिद्दी हो गई है, इसलिए आपूर्ति में थोड़ी सी कमी पर भी कीमतों में ज्यादा वृद्धि हो सकती है।

ईरान संघर्ष से वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर

मुख्य बिंदु	आंकड़ा
2025 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला कच्चा तेल और तेल उत्पाद	20 मिलियन बैरल प्रतिदिन
युद्ध शुरू होने के बाद मार्ग से होने वाली तेल खप फरवरी में वैश्विक तेल आपूर्ति	संकट से पहले के स्तर के 10% से भी कम
मार्च में अनुमानित वैश्विक तेल आपूर्ति	106.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन
10 मार्च तक कम हुई कच्चे तेल और कंडेनसेट उत्पादन की मात्रा	98.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)	10 मिलियन बैरल प्रतिदिन

एलपीजी का स्वदेशी और सुरक्षित विकल्प 'डीएमई'

पुणे, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने डाइमिथाइल ईथर को रसोई गैस के एक स्वदेशी और सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया है।

क्या है यह नई तकनीक?
सीएसआईआर-एनसीएल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो मथेनाल को कुशलतापूर्वक डीएमई में बदल देती है। इस प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास उत्प्रेरक तैयार किया है, जिसका पेटेंट करा लिया गया है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि डीएमई को 10 बार के दबाव पर सीधे एलपीजी सिलेंडरों में भरा जा सकता है। यह ईंधन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आर्थिक रूप से भी देश के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा-सभी 25 हजार 605 डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस सिलेंडर उपलब्ध

घरेलू एलपीजी उत्पादन और बुकिंग तेजी से बढ़ी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पांच मार्च को रिफाइनरियों को एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश के बाद उत्पादन में 30 फीसदी वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दावा किया कि देश भर के सभी 25 हजार 605 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। प्रतिदिन की सामान्य मांग के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता नहीं है।



पटना में शुक्रवार को गैस एजेंसियों पर गैस सिलेंडर को उतारते कर्मी। • संतोष कुमार

सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कसने लगा शिकंजा

गैस आपूर्ति को लेकर कालाबाजारियों-जमाखोरों पर कार्रवाई तेज हुई है। राज्यों में अभियान के दौरान सैकड़ों घरेलू गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं।

उत्तराखंड: कालाबाजारी करने में चार मुकदमे दर्ज

उत्तराखंड में व्यापक अभियान चलाया गया है। 1280 स्थानों पर ओघक निरीक्षण, 58 जगहों पर छापा मारा गया। अधिकारियों ने बताया इस दौरान 74 सिलेंडर जब्त किए गए। चार मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश: कॉस्मेटिक दुकान में गैस सिलेंडर

जौनपुर के कल्याणपुर बाजार में एक जनसेवा केंद्र और कॉस्मेटिक की दुकान पर 61 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं, भदोही में भी पूर्ण विभाग ने आनंद फर्निचर के पास 12 घरेलू सिलेंडर, पांच किलो के तीन भरे सिलेंडर जब्त किए हैं।

कालाबाजारी में मुकदमा

हापुड़ संवाददाता। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम असीड़ा में अवैध रूप से गैस के सिलेंडर का भंडारण कर कालाबाजारी करने आरोपी के खिलाफ पूर्ण निरीक्षण में मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्ण निरीक्षण प्रीति रागी ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि असीड़ा निवासी रिहान के घर से 18 भरे हुए और 14 खाली घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
एनएएमएस भवन, मंडिकल एंक्लेव, अंसारी नगर
नई दिल्ली - 110029

नीट - एमडीएस 2026

सूचना

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा नीट-एमडीएस 2026 परीक्षा का आयोजन 02.05.2026 को किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन एनबीईएमएस वेबसाइट: <https://natboard.edu.in/viewnbeexam?exam=neetmids> पर 14.03.2026 से 30.03.2026 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं।

उम्मीदवार सहायता केंद्र: +91-7996165333

- आवेदक लॉगिन पेज पर हेल्पलाइन पोर्टल
- एनबीईएमएस वेबसाइट पर संचार वेब एनबीईएमएस वेबसाइट पर संचार वेब पोर्टल

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 16, 2026 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE" together with NSE, the "Stock Exchanges") and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

SICAL

A Pristine Group Company
SICAL LOGISTICS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'South India Corporation (Agencies) Private Limited' on May 6, 1955, as a company limited by shares under the Companies Act, 1913 pursuant to a certificate of incorporation dated May 6, 1955, within the jurisdiction of the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Madras (now Chennai). Subsequently, the name of our Company was changed to 'Sical Logistics Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued on February 14, 2006, under the Companies Act, 1956 by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("ROC").

THE PROMOTER OF OUR COMPANY IS PRISTINE MALWA LOGISTICS PARK PRIVATE LIMITED
FOR PRIVATE CIRCULATION TO PUBLIC SHAREHOLDERS OF SICAL LOGISTICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 1,45,35,790* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹64 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹54 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹9,303 LAKHS* ON RIGHTS BASIS TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 11 (ELEVEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 18, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 71.

*Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Shareholders and Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on February 26, 2026, and closed on March 10, 2026.

Out of the total 1177 Applications for 2,01,52,753 Rights Equity Shares, 109 Applications for 30,02,863 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer.

The total number of valid Applications received were 1068 for 1,71,49,890 Rights Equity Shares, which was 117.98 % of the number of Rights Equity Shares to be Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on March 11, 2026, in consultation with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Board of Directors of the Company on March 12, 2026 has approved the allotment of 1,45,35,790 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. Information regarding Applications received (including ASBA applications received, after technical rejection):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Public Shareholders	1044	97.75	1,57,55,640	1,00,83,60,960	91.87	1,36,22,347	87,18,30,208	93.72
Renounees*	24	2.25	13,94,250	8,92,32,000	8.13	9,13,443	5,84,60,352	6.28
Total	1068	100.00	1,71,49,890	1,09,75,92,960	100	1,45,35,790	93,02,90,560	100.00

* Investors (identified based on DPID and Client ID) whose name do not appear on the list of Public Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the issue are considered the Renounees

2. Basis of Allotment:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received Number	No. of Shares under valid applications	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A) Number	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B) Number	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B) Number
Public Shareholders	1044	1,57,55,640	43,74,993	92,47,354	1,36,22,347
Renounees*	24	13,94,250	9,13,443	0	9,13,443
Total	1068	1,71,49,890	52,88,436	92,47,354	1,45,35,790

* Investors (identified based on DPID and Client ID) whose name do not appear on the list of Public Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the issue are considered the Renounees

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, was completed on March 13, 2026. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications was issued to SCSBs on March 11, 2026. The listing application was filed with NSE and BSE on March 12, 2026. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form was completed on March 13, 2026. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA accounts" on page 94 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE and BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about March 17, 2026. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/31 dated 11/03/2025, the request for extinguishment of Rights Entitlements was sent to NSDL & CDSL on March 13, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALIZATION FORM.

Disclaimer clause of NSE (Designated Stock Exchange)
It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer clause of the NSE under the heading "Other regulatory and statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 68 of the Letter of Offer.

Disclaimer clause of BSE:
It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited under the heading "Other regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 69 of the Letter of Offer.

ऊर्जा आयात के स्रोतों में तेजी से किया गया बदलाव

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत अपनी ऊर्जा आयात के स्रोतों में तेजी से विविधता ला रहा है। बीते 11 वर्षों में भारत ने ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण को बदलने की दिशा में काम किया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका-ईरान युद्ध से जहां विश्व ऊर्जा कीमतों पर व्यापक प्रभाव उछाल आया है और कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ऐसी स्थिति में देश

में पेट्रोल-डीजल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए बीते एक दशक में सुनियोजित नीतिगत निर्णय लिए गए। कूटनीतिक माध्यम से भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार किया। नतीजा है एक दशक पहले जहां भारत 27 देशों से कच्चे तेल मंगाता था तो वहां आज यह संख्या बढ़कर 40 देशों से अधिक हो गई है।

ईंधन की कीमतें बढ़ने से इंडिगो से हवाई सफर महंगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए यात्रियों से अतिरिक्त फ्यूल चार्ज (ईंधन शुल्क) लेने का फैसला किया है। 14 मार्च से सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय बुकिंग पर नया शुल्क लागू होगा। घरेलू और भारतीय उपमहाद्वीप की नई टिकट बुकिंग पर 425 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इससे पहले एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च से हर

घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपये का अतिरिक्त ईंधन शुल्क लगाया है। कंपनी के मुताबिक जंग से हवाई ईंधन की कीमतों में अचानक तेज उछाल आया है। ईंधन की कीमतों में 85% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में एविएशन टैक्स पर फ्यूल का बड़ा हिस्सा होता है। ईंधन शुल्क रूट और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगा। घरेलू और भारतीय उपमहाद्वीप की उड़ानों पर 425 रुपये शुल्क लगेगा।

मांग के बीच इंडक्शन चूल्हा हुआ आउट ऑफ स्टॉक

अरुण चट्टा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। खाड़ी देशों में जारी तनाव का असर भारत में इंडक्शन चूल्हों की उपलब्धता और कीमतों पर तेजी से पड़ रहा है। लोग आपात स्थिति के लिए विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों पर इंडक्शन चूल्हे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। अचानक से बढ़ी मांग का असर कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह के अंदर कीमतों में 30-35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

मिनटों में बिका गया चूल्हा

तीन दिन पूर्व अमेजॉन पर पिज्जा कंपनी के 1399 कीमत वाले कुछ हजार इंडक्शन बिकी की लिस्टिंग पोर्टल पर अपलोड किए। कुछ ही मिनटों के बाद इंडक्शन चूल्हा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कुछ लोगों ने एड टू चांर करके पेमेंट की प्रक्रिया शुरू किया तो यह आइटम आउट ऑफ स्टॉक दिखा।

कीमतें बढ़ाई

मार्च के पहले सप्ताह की शुरुआत में जो इंडक्शन टो हजार में उपलब्ध थे। अब कीमतें तीन हजार तक पहुंच गई हैं। जैसे ही कंपनियों की तरफ से स्टॉक उपलब्ध कराया जाता तो ई-कॉमर्स कंपनी उसकी एमआरपी को ऊंचा दिखाती है और फिर उस पर 30% का डिस्काउंट दिखाकर बेचने को ऑन बोर्ड करती है।

कंपनियों की वेबसाइट पर 1500 से 2000 रुपये तक की कीमत वाले इंडक्शन चूल्हे उपलब्ध नहीं हैं। एक ई-कॉमर्स कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में अचानक से इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है। हम कंपनियों को नए चूल्हों के ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, इंडक्शन चूल्हा बनाने वाली खरीदारी बढ़ने के बाद अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। अंतर स्टॉक आता है तो वेबसाइट पर उसकी जानकारी अपलोड होने के कुछ ही मिनट में बिक जाता है। अधिकांश ई-कॉमर्स

मोबाइल क्षेत्र को 300 करोड़ डॉलर के नुकसान का खतरा

शुभिक दास

नई दिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते मोबाइल फोन निर्यात पर पश्चिम एशिया संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में की पहली छमाही में लगभग 11 सौ करोड़ डॉलर का राजस्व देने वाले इस सेक्टर को लगभग दो सौ से तीन सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैचरिंग सर्विसेज कंपनियां खाड़ी देशों में बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन निर्यात करती हैं। ऐसे में उन्हें व्यापार और मांग में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कोटाक इस्टीमेट्स इन्वेंट्रीज के विश्लेषक सुवीदीप रक्षित और स्वरूपजीत पालित ने छह मार्च को निवेशकों को भेजे एक नोट में लिखा है कि इस संघर्ष के कारण मोबाइल फोन सवधिक प्रभावित होने वाली शीर्ष पांच वस्तुओं में से एक है।

कंपनियों पर असर संभव

विश्लेषकों के अनुसार, इस संकट का असर उन कंपनियों पर अधिक पड़ सकता है, जो खाड़ी क्षेत्र को सीधे निर्यात करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप (जिसमें भारत एफआईएच, राईजिंग स्टारस और युझान टेक्नोलॉजी शामिल हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवर्सन टेक्नोलॉजीज, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में खाड़ी और पश्चिमी एशिया को मोबाइल फोन निर्यात बढ़कर 310 करोड़ डॉलर हो गया, जो देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 12 प्रतिशत है। अगर यह संघर्ष जारी रहता है, तो अगले वित्त वर्ष में तीन अरब डॉलर निर्यात पूरी तरह खत्म हो सकते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता

शुद्धिपत्र-II

"पीपीपी मोड के माध्यम से कंटेनरों एवं मल्टीपरपस ज्वलन क्रामों (इंड्र और ब्रेक बल्क) के संचालन के लिए हल्किया गोदी परिसर में आउटर टर्मिनल एवं बर्थ नं. 11 एवं 12 के एकीकृत विकास" के लिए (निविदा संख्या एनडीएम (पी एंड ई)/टी/33/2025-2026) ई-निविदा संख्या 2026 के ओपीटी -897047_1 में कुछ परिवर्तन "शुद्धिपत्र - II" में शामिल किए गए हैं। बोली कागजात (संपूर्ण) और शुद्धिपत्र-II वेबसाइट <https://smp.smartport.kolkata.in> में उपलब्ध हैं और बोली प्रक्रिया में भागीदारी केवल <https://eprocure.gov.in> में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

सौएसआईआर-पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय इकाई (बी.एस.आई.आर., विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वायत्त निकाय) 14, ससंग विहार मार्ग, नई दिल्ली-110067 दूरभाष: 011-26851136, ई-मेल: tkdlsupport@csir.res.in

विज्ञापन संख्या: TKDL/01/2026

भारत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों का डिजिटलीकरण" (एचसीपी22401) संबंधी परियोजना में पूर्णतः अस्थायी आधार पर काम करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पर (पब), कार्य क्षेत्र (क्षेत्रों) का विवरण और पर (पब) की संख्या निम्नवत है:

पद का नाम	व्योक्तता: अनिवार्य/वैकल्पिक	पदों की संख्या
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर/परियोजना सहायक-1	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संस्कृत भाषा में मास्टर/डॉक्टरेट मास्टर डिग्री या इसके बराबर/समकक्ष। वैकल्पिक: संस्कृत टेक्स्ट / साहित्य के टांसेलेशन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	02

निवृत्त विज्ञापन सौएसआईआर की website www.csir.res.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 23 मार्च 2026

उप-सचिव सौएसआईआर-टीकेडीएल इकाई
CBC 36202/11/0034/2526

REGISTRAR TO THE ISSUE

CAMEO Corporate Services Limited
Address: No.01, Club House Road, Mount Road, Chennai - 600002, Tamil Nadu
Telephone: 044 4002 0700 / 2846 0390
E-mail: rights@cameoindia.com
Investor Grievance ID: investor@cameoindia.com
Contact Person: Ms. K. Sreepriya
Website: www.cameoindia.com
SEBI Registration No.: INR000003753

COMPANY

SICAL LOGISTICS LIMITED
Address: South India House 73, Armenian Street, Chennai - 600001, Tamil Nadu
Telephone: +91 44 66157071 / 72
E-mail: cs@pristineinvestments.com
Contact Person: Vaishali Jain
Website: www.sical.in
SEBI Registration No.: L51909TN1955PLC002431

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Sical Logistics LIMITED
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Vaishali Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai
Date: March 13, 2026

SICAL LOGISTICS LIMITED has filed a Letter of Offer with Stock Exchanges on February 16, 2026. The letter of offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the stock exchange at www.bseindia.com, www.nseindia.com the Company website at www.sical.in and the website of registrar at www.cameoindia.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer filed with the SEBI and the stock exchanges, including the section titled "Risk Factors" on Page 16 of the Letter of Offer, for details of the same.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer or sale of securities in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable State Securities Laws. Accordingly, the Rights Equity Shares are only being offered and sold in "Offshore Transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Entitlements or Rights Equity Shares for sale in the United States or as a solicitation therein of an Offer to buy any of the said Securities. Accordingly, you should not forward or transmit the Letter of Offer into the United States at any time.

